


FOR SSC, UPSSSC, RAILWAY, ALL EXAM



संख्या पद्धति

PRACTICE CLASS

1


**RRB NTPC GROUP D में
आये प्रश्नों का हल सीधे
EXAM से 30+**



By Ankit Sharma



Math (Study Pattern)



Concept Class + Practice Class with timer (विभिन्न परीक्षाओं में आये 100+ प्रश्नों का हल)

1

संख्या पद्धति

2

भित्र

3

वर्ग व वर्गमूल तथा घन व घनमूल

4

सरलीकरण

5

अनुपात व समानुपात

6

प्रतिशतता

7

लाभ—हानि व बट्टा

8

औसत

9

मिश्रण

10

घातांक व करणी

11

ल.स. व म.स.

12

कार्य व समय

13

पाइप व टंकी

14

दूरी व चाल, नाव व रेलगाड़ी

15

साधारण ब्याज

16

चक्रवृद्धि ब्याज

17

त्रिकोणमिति

18

क्षेत्रमिति

19

आयतन

20

बीजगणित

21

ज्यामिति

22

निर्देशांक ज्यामिति

1

निम्न में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी—

(a) 16900

(b) 36000

(c) 28900

(d) 62500

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



2

कौन—सी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जो 2736 को विभाजित कर दें और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए—

(a) 171

(b) 18

(c) 19

(d) 9

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



3

$276x1,3$ से विभाज्य हैं, x के संभावित मानों का याग क्या हैं—

(a) 15

(b) 18

(c) 12

(d) 21

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



4

निम्न में कौन–सी संख्या 6 से विभाज्य हैं—

(a) 12346

(b) 12348

(c) 12344

(d) 12340

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



5

$2^8 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^5$ के कितने गुणक सम संख्याएँ हैं—

(a) 576

(b) 288

(c) 168

(d) 464

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



6

एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीता गया हैं। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए—

(a) 0.667

(b) 0.067

(c) 0.50

(d) 0.333

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



7

निम्न में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी—

(a) 20000

(b) 25000

(c) 19600

(d) 18400

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



8

अंको 3, 7, 0 और 9 से निर्मित चार अंको की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंको का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो—

(a) 5661

(b) 6624

(c) 5994

(d) 6651

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



9

12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना हैं—

(a) $\frac{3}{10}$

(b) $\frac{3}{100}$

(c) $\frac{3}{1000}$

(d) 3

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com

10

वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, क्या हैं—

(a) 96

(b) 73

(c) 69

(d) 9

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



11

$2^7 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^2$ के कितने गुणनखंड सम संख्याये हैं—

(a) 288

(b) 84

(c) 252

(d) 45

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



12

वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 60, 72, और 108 से विभाज्य से विभाज्य हैं—

(a) 22500

(b) 32400

(c) 14400

(d) 57600

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



13

3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णक संख्या क्या होगी—

(a) 100

(b) 105

(c) 99

(d) 208

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



शून्य संख्याओं के साथ समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है—

(a) विषम

(b) अभाज्य

(c) सम

(d) भाज्य

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



15

56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन—सा होगा—

(a) 24

(b) 14

(c) 18

(d) 23

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



16

निम्न संख्याओं में से कौन–सी भाज्य संख्या हैं—

(a) 91

(b) 71

(c) 31

(d) 41

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



17

निम्न में से कौन–सी संख्याएं 12 से विभाज्य हैं—

(a) 63460

(b) 33460

(c) 53460

(d) 43460

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



18

एक संख्या में दो अंक हैं, जिसका योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए—

(a) 72

(b) 45

(c) 63

(d) 36

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



19

$378 \times 136 \times 259 \times 212$ के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा—

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 5

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



निम्न में से कौन–सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य हैं—

(a) 56112

(b) 49653

(c) 89445

(d) 58556

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



21

729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं—

(a) 5

(b) 2

(c) 4

(d) 3

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



5^2 और 6^2 के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं।

(a) 11

(b) 12

(c) 6

(d) 10

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



23

एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 से गुणा कर दिया उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक होगा—

(a) 60425

(b) 62450

(c) 62455

(d) 61455

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



24

सीमा को अपने पिता से 50रु. मिले, जिसमें से उसने 15रु. की टॉफी खरीदी। उसकी माँ ने उसे 30रु. दिये, पर उसके भाई ने उससे 42रु. ले लिए। उसके पास कितने रुपये बचे—

(a) 20

(b) 24रु.

(c) 25

(d) 23

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



2.4 से 0.15 निकालें और परिणाम में 7.5 जोड़ दे। परिणाम क्या आएगा—

(a) 9.25

(b) 8.75

(c) 6

(d) 7.25

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



दो अंको की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, मूल संख्या और नयी संख्या के बीच का अंतर 27 हो जाता है। यदि इस संख्या के दोनों अंको का योग 9 है, तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का ल.स. और संख्या ज्ञात कीजिए—

(a) 6

(b) 5

(c) 9

(d) त्रुटि

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



27

$7^{95} - 3^{58}$ द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाईयों में अंको की संख्या कितनी हैं—

(a) 7

(b) 6

(c) 0

(d) 4

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com

दो संख्याओं का योग 9 हैं और उनके व्युत्क्रमों का योग $\frac{1}{2}$ हैं, तो उनमें से एक संख्या हैं—

(a) 2

(b) 6

(c) 5

(d) 4

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है?

(a) 5632654

(b) 6542176

(c) 7253566

(d) 4187290

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



30

यदि संख्या $x4461$, 11 से विभाज्य हैं, तो x का मान क्या हैं—

(a) 3

(b) 2

(c) 4

(d) 5

RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन–सा हैं—

(a) (71, 73)

(b) (3, 7)

(c) (37, 41)

(d) (43, 47)


RRB GROUP D 2018



इस वीडियो की पीडीएफ लिंक या www.nextexampoint.wordpress.com



FOR SSC, UPSSSC, RAILWAY, ALL EXAM



मिश्र(Fraction)

CONCEPT CLASS


4

प्रकार, दशवलव, साधारण, मिश्र
को आपस में बदलना, योग व
अंतर, गुणन व भाग, विविध



By Ankit Sharma





THANKS FOR WATCHING

SUBSCRIBE



- FOR NOTES , Pdf, daily current affairs
- www.nextexampoint.wordpress.com

हमारी बेकसाइट से पीडीफ नोट्स व दैनिक करेन्ट अफेयर्स डाउनलोड करें मुफ्त में। अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिएं।